



**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**Index**

**7.2.1. Best practice 2 (Additional file- I)**

<b>Sl. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page no.</b>
1.	Crop residue management using biodecomposer by the university at KVK Kotwa, Azamgarh (U.P.)	2
2.	Hands-on training on crop residue management by the university at Kotwa, Azamgarh (U.P.)	3
3.	Five days training programme on crop residue management organized by the university at KVK Sohna, Sidharthnagar (U.P.)	4
4.	Five days training programme on crop residue management organized by the university at KVK Kotwa, Azamgarh (U.P.)	5
5.	Awareness programme on crop residue management published in news paper	6
6	Village level awareness programme on crop residue management organized by the university at KVK Sohna, Sidharthnagar (U.P.)	7
7	Awareness programme on mobilization of students (assay, painting and quiz) under crop residue management organized by the university at Chhatrapati Shivaji Smarak Inter College, Sidharthnagar (U.P.)	8
8	Kisan Mela organized a on crop residue management and happy seeder (live demonstration)	9
9	Crop residue management using power shredder cum mulcher at university farms	10
10	Crop grown in crop residue managed field at Kotwa, Azamgarh (U.P.)	11
11	University scientists visited at farmer's field (crop residue managed field) in Azamgarh (U.P.)	12
12	Crop residues used for mulching	13



**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



## **CROP RESIDUE MANAGEMENT USING BIODECOMPOSER BY THE UNIVERSITY AT KVK KOTWA, AZAMGARH (U.P.)**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**HANDS-ON TRAINING ON CROP RESIDUE MANAGEMENT  
BY THE UNIVERSITY AT KOTWA, AZAMGARH (U.P.)  
DURING 29-30 NOVEMBER, 2021**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**FIVE DAYS TRAINING PROGRAMME ON CROP RESIDUE  
MANAGEMENT ORGANIZED BY THE UNIVERSITY AT KVK  
SOHNA, SIDHARTHANAGAR (U.P.)**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**FIVE DAYS TRAINING PROGRAMME ON CROP RESIDUE  
MANAGEMENT ORGANIZED BY THE UNIVERSITY AT KVK  
KOTWA, AZAMGARH (U.P.)**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



## **AWARENESS PROGRAMME ON CROP RESIDUE MANAGEMENT PUBLISHED IN NEWS PAPER**



## **फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक हुए किसान**

सोहना, सिद्धार्थनगर। कृषि विज्ञान केंद्र सोहना के परिक्षेत्र अंतर्गत चरगवा गांव में शुक्रवार को इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत गांव स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले हानियों के बारे में जागरूक किया। इससे किसान फसल अवशेष न जलाकर खेत में ही सड़ाए।



**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**VILLAGE LEVEL AWARENESS PROGRAMME ON CROP RESIDUE  
MANAGEMENT ORGANIZED BY THE UNIVERSITY AT KVK  
SOHNA, SIDHARTHANAGAR (U.P.)**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**AWARENESS PROGRAMME ON MOBILIZATION OF STUDENTS  
(ASSAY, PAINTING AND QUIZ) UNDER CROP RESIDUE  
MANAGEMENT ORGANIZED BY THE UNIVERSITY AT  
CHHATRAPATI SHIVAJI SMARAK INTER COLLEGE,  
SIDHARTHANAGAR (U.P.)**







**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**KISAN MELA ORGANIZED A ON CROP RESIDUE MANAGEMENT  
(BANNER)**



**HAPPY SEEDER (LIVE DEMONSTRATION)**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



## **CROP RESIDUE MANAGEMENT USING POWER SHREDDER CUM MULCHER AT UNIVERSITY FARMS**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**CROP GROWN IN CROP RESIDUE MANAGED FIELD AT  
KOTWA, AZAMGARH (U.P.)**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



**UNIVERSITY SCIENTISTS VISITED AT FARMER'S FIELD  
(CROP RESIDUE MANAGED FIELD) IN AZAMGARH (U.P.)**





**Acharya Narendra Deva University of  
Agriculture and Technology, Kumarganj,  
Ayodhya-224229**



## **CROP RESIDUES USED FOR MULCHING**

